



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

Faculty of Social Science

Master of Arts (M.A.)

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

M.A. II Semester

Paper 1- Western Political Thought

Course Outcomes

CO. No.	Course Outcomes
CO 1	Student will be able to understand Genesis and development of Western political thought.
CO 2	Student will develop understanding of Greek political thought and ideas of Plato and Aristotle.
CO 3	Student will be able to understand Roman and medieval political thought, and to know the ideas of Hobbes Locke, Rousseau and Montesquieu.
CO 4	Student will be able to analyse ideas of Bentham, Mill, Hegel and Green.
CO 5	students will be able to evaluate the political ideas of Marx, Lenin and Mao.
CO 6	student will become aware of the ideas of Rawls-Nozic and communitarians.
CO 7	student will understand ideas of Laski, pluralism and Fascism.



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

Units	Topics
I	<ol style="list-style-type: none">1. Greek Political Thought: Characteristics2. Political Thought of Plato3. Political Thought of Aristotle
II	<ol style="list-style-type: none">1. Roma Political Thought : Characteristics2. Medieval Political Thought : Characteristics3. Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu
III	<ol style="list-style-type: none">1. Bentham and J.S. Mill2. Hegel and Green
IV	<ol style="list-style-type: none">1. Marx2. Lenin3. Mao-Tse-Tung
V	<ol style="list-style-type: none">1. Rawls, Nozic and Communitarians2. Laski, Pluralism. Fascism



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

CO. No.	Course Outcomes
CO 1	विद्यार्थी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति और विकास को समझने में सक्षम होंगे।
CO 2	विद्यार्थियों में यूनानी छिनतं और प्लेटो तथा अरस्तू के राजनीतिक चिंतन की समझ पैदा होगी।
CO 3	विद्यार्थी मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और मांटेस्क्यू के विचारों से भी अवगत हो सकेंगे और मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और मांटेस्क्यू के विचारों से भी अवगत हो सकेंगे।
CO 4	विद्यार्थी बेंथम, जे. एस. मिल, हीगल तथा ग्रीन के मुख्य विचारों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे।
CO 5	विद्यार्थी मार्क्स, लेनिन व माओ-त्से-तुंग के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे।
CO 6	विद्यार्थी रॉल्स, नोजिक और समुदायवाद के विचारों से परिचित हो सकेंगे।
CO	विद्यार्थी लास्की बहुलवाद, और फासीवाद को समझ सकेंगे।

इकाई	विषय
1	1. यूनानी राजनीतिक चिंतन : विशेषताएँ 2. प्लेटो का राजनीतिक चिंतन 3. अरस्तू का राजनीतिक चिंतन
२	1. रोमन राजनीतिक चिंतन : विशेषताएँ 2. मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन : विशेषताएँ 3. मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और मांटेस्क्यू
३.	1. बेंथम तथा जे. एस. मिल 2. हीगल तथा ग्रीन
४.	1. मार्क्स, 2. लेनिन 3. माओ-त्से-तुंग
5.	1. रॉल्स, नोजिक तथा समुदायवाद 2. लास्की, बहुलवाद और फासीवाद



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

Faculty of Social Science

Master of Arts (M.A.)

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

M.A. II Semester

Paper 2- State Politics in India

Course Outcomes

CO. No.	Course Outcomes
CO 1	Students will have better understanding of state politics in India.
CO 2	Students will be able to understand the powers and functions of state executive- Governor, Chief Minister and Council of Ministers.
CO 3	Students will get knowledge of structure, functions and work of state legislature Vidhan Sabha and Vidhan Parishad.
CO 4	Student will get knowledge of State judiciary, jurisdiction and powers of High Court and Subordinate courts.
CO 5	Student will have better understanding of factors affecting state politics.
CO 6	Student will come to know various commissions in the state and the pattern of state politics.



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

Units	Topics
I	State Executive: Governor, Chief Minister and Council of Ministers
II	State Legislature: Vidhan Sabha and Vidhan Parishad
III	Judiciary: High Court and Subordinate Courts
IV	<ol style="list-style-type: none">1. Factors and Characteristics determining state politics in India2. Increasing Demand for State Autonomy3. Demand for the creation of new states4. State politics in the era of Globalization and coalition politics5. Inter State River Water Disputes
V	<ol style="list-style-type: none">1. Inter-state Council2. State Planning Commission3. State Finance Commission4. State Election Commission5. Broad Pattern of State Politics in India



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

CO. No.	Course Outcomes
CO 1	विद्यार्थियों में भारत में राज्यों की राजनीति के संबंध में समझ विकसित होगी।
CO 2	विद्यार्थी राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की शक्ति और कार्यों को समझ सकेंगे।
CO 3	विद्यार्थी राज्य की व्यवस्थापिका, विधान सभा और विधान परिषद के कार्य और शक्तियों को भी समझ सकेंगे।
CO 4	विद्यार्थी राज्य की न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
CO 5	विद्यार्थी भारत में राज्य राजनीति को प्रभावित करने वाले कारकों एवं विशेषताओं को जैसे अंतरराज्यीय नदी जल विवाद इत्यादि के संबंध में समझ विकसित कर सकेंगे।
CO 6	विद्यार्थी राज्यों की अंतरराज्यीय परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग एवं राज्यों की राजनीति के प्रतिमानों को समझ सकेंगे।

इकाई	विषय
1	राज्य की कार्यपालिका : राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद
२	राज्य की व्यवस्थापिका : विधान सभा एवं विधान परिषद
३.	राज्य की न्यायपालिका : उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय
४.	1. भारत में राज्य राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक एवं विशेषताएँ 2. राज्य स्वायत्तता की बढ़ती मांग 3. नए राज्यों के गठन की मांग 4. भूमंडलीकरण एवं गठबंधन की राजनीति के युग में राज्य राजनीति 5. अंतरराज्यीय नदी जल विवाद
5.	1. अन्यत्र राज्यीय परिषद 2. राज्य योजना आयोग 3. राज्य वित्त आयोग 4. राज्य निर्वाचन आयोग 5. भारत में राज्यों की राजनीति का व्यापक प्रतिमान



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

Faculty of Social Science

Master of Arts (M.A.)

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

M.A. II Semester

Paper 3- Major Ideas and Issues in Public Administration

Course Outcomes

CO. No.	Course Outcomes
CO 1	Students will come to know nature of Administration in Indian Knowledge System.
CO 2	Students will be able to distinguish public administration from private administration.
CO 3	Students will be able to explain how the administration has been understood by different approaches and how all these reinforce the overall understanding of the organization.
CO 4	They will come to know what is Bureaucracy and what is the impact of globalization and liberalization on it.
CO 5	The students will cultivate an understanding of different approaches to understand financial administration.



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

Units	Topics
I	<ol style="list-style-type: none">1. Meaning, nature and scope of Public Administration2. Nature of Administration in Indian Knowledge System3. Evolution of Public Administration as a discipline4. New Public Administration5. Impact of Information Technology on Administration
II	<ol style="list-style-type: none">1. Decision Making Approach of Herbert Simon2. Development Administration Approach3. Ecological Approach- Fred Riggs Model4. Scientific Management Theory- Taylor
III	<ol style="list-style-type: none">1. Liberal Democratic Approach2. Marxist Leninist Approach3. Welfare State Approach
IV	<ol style="list-style-type: none">6. Financial Administration- Importance and Aims7. Zero Base Budgeting and Performance Budgeting- Process, Problems and Importance.8. Political And Administrative interaction in Economic Development9. Impact of Economic Liberalization and Globalization on Administration
V	<ol style="list-style-type: none">6. Inter-state Council7. State Planning Commission8. State Finance Commission9. State Election Commission10. Broad Pattern of State Politics in India



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

CO. No.	Course Outcomes
CO 1	विद्यार्थियों भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रशासन की प्रकृति को समझ सकेंगे।
CO 2	विद्यार्थी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर को समझ सकेंगे।
CO 3	विभिन्न उपागमों से प्रशासन को देखने हैं और संगठन की समझ को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।
CO 4	नौकरशाही क्या है और उस वैश्वीकरण और उदारीकरण का क्या प्रभाव है इसको समझने में सक्षम बनायेंगे।
CO 5	वित्तीय प्रशासन को समझने के लिए विभिन्न उपागमों की समझ विकसित होगी।

इकाई	विषय
1	<ol style="list-style-type: none">1. लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति2. भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रशासन की प्रकृति3. एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास4. नवीन लोक प्रशासन5. सूचना प्रौद्योगिकी का लोक प्रशासन पर प्रभाव
२	<ol style="list-style-type: none">1. हर्बर्ट साइमन का निर्णय – निर्माण उपागम2. विकास प्रशासन उपागम3. पारिस्थितिकीय उपागम- फ्रेड रिग्ग्स प्रारूप4. वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत – टेलर
३.	<ol style="list-style-type: none">1. उदारवादी लोकतान्त्रिक उपागम2. मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम3. लोक कल्याणकारी राज्य उपागम
४.	<ol style="list-style-type: none">1. वित्तीय प्रशासन – आवश्यकता और उद्देश्य2. शून्य आधारित बजट और कार्य निष्पादन बजट – प्रक्रिया समस्याएं और आवश्यकता3. आर्थिक विकास में राजनीतिक और प्रशासनिक अंतःक्रिया4. प्रशासन पर आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव
5.	<ol style="list-style-type: none">1. लोक सेवा की तटस्थता2. नौकरशाही में गिरावट3. नौकरशाही का आधुनिकीकरण4. प्रशासनिक प्रबंध



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

Faculty of Social Science

Master of Arts (M.A.)

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

M.A. II Semester

Paper 4- International Organization

Course Outcomes

CO. No.	Course Outcomes
CO 1	Students will understand nature and development of International Organization.
CO 2	Student will be able to understand the role of League of Nations and Causes of its failure.
CO 3	Student will come to know about the structure and functions of United Nations and need of reform in United nations.
CO 4	Student will know the peaceful and other means of solving international disputes through United Nations.
CO 5	Student will come to know the social, economic and humanitarian role of United Nations in Post-cold war era.
CO 6	Student will come to know the role of United Nations in Disarmament and also the role of developing countries in furthering aims and objectives of United Nations.



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

Units	Topics
I	1. Nature and Evolution of International Organization 2. The league of Nations: Role in protecting world peace, Causes of failure of League of Nations.
II	1. The United Nations: Structure and Functions, Various Organs of the UN, Need of reforms in the structure of UN
III	1. Peaceful Settlement and Forceful Settlement of International Disputes and Enforcement Action. 2. Economic and Social Development and the Role of the UN
IV	1. UN in the Post Cold War Era, Socio Economic and Humanitarian Role. 2. UN as a peace keeper & Politics within UN
V	1. UN 's role in Disarmament 2. Contribution of Third World to Achieve goal of UN



ST. ALOYSIUS COLLEGE(AUTONOMOUS), JABALPUR

Reaccredited 'A++' Grade by NAAC(CGPA:3.58/4.00)

College with Potential for Excellence by UGC

DST-FIST Supported & STAR College Scheme by DBT

CO. No.	Course Outcomes
CO 1	विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय संगठन की प्रकृति एवं विकास को समझ सकेंगे।
CO 2	विद्यार्थी राष्ट्र संघ की भूमिका और उसकी सफलता के कारणों को जान सकेंगे।
CO 3	विद्यार्थी संयुक्त राष्ट्र की संरचना एवम कार्य, उसके विभिन्न अंगों और संरचना में सुधारों की आवश्यकता को जान सकेंगे।
CO 4	विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण एवं बाध्यकारी समाधान तथा आर्थिक, सामाजिक विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
CO 5	विद्यार्थी शीतयुद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक, आरती एवं मानवीय भूमिका के साथ ही उसके शांति स्थापक के रूप में कार्यों को जान सकेंगे।
CO 6	विद्यार्थी निशस्त्रीकरण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति में तृतीय विश्व की भूमिका के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

इकाई	विषय
1	1. अंतरराष्ट्रीय संगठन की प्रकृति एवं विकास 2. राष्ट्र संघ : विश्व शांति की रक्षा में भूमिका, राष्ट्र संघ की असफलता के कारण
२	1. संयुक्त राष्ट्र : संरचना, एवं कार्य, संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुधारों की आवश्यकता।
३.	अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण एवं बाध्यकारी समाधान, दबावपूर्ण कार्यवाही, आर्थिक सामाजिक विकास और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका।
४.	शीतयुद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र, सामाजिक-आर्थिक एवं मानवीय भूमिका, शांति स्थापक के रूप में संयुक्त राष्ट्र के अन्दर की राजनीति
5.	निशस्त्रीकरण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति में तृतीय विश्व की भूमिका